



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941—सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941—September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 11, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9805 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Todaraisingh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Todaraisingh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government

कार्यालय नगरपालिका टोडारायसिंह जिला टॉक (राज.)

प्रारूप - 'क'

क्र.स.	वार्ड न.	वार्ड का सीमांकन का विवरण
1	वार्ड न.1	कृषी मंडी के उत्तरी भाग से होकर बापू नगर को शामिल करते हुये उसके पीछे की आबादी को शामिल करते हुये, जयपुर रोड के पश्चिम दिशा में बजरंग मंगर की दुकान को शामिल करते हुये आगे जगदीश चरड की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये आगे पन्ना लाल व्याख्याता की गली की दोनों तरफ की आबादी शामिल करते हुये जोधराज जी गिरदावर की गली की दोनों तरफ की आबादी शामिल करते हुये रामदयाल जी कुर्मा की गली की दोनों तरफ की आबादी शामिल करते हुये किशन कुमावत की गली की दोनों और की आबादी शामिल करते हुये संस्कार विद्यालय की गली की दोनों और की आबादी शामिल करते हुये शिवजी लाल जी की गली की दोनों और की आबादी शामिल करते हुये, हनुमान कुर्मा की गली की दोनों और की आबादी शामिल करते हुये चिस्ती की दुकान को शामिल करते हुये राजेंद्र विजयवर्गीय के मकान को शामिल करते हुये नवल जी पंचोली के मकान के आगे कन्हैया लाल जी के खेत के पश्चिम कोने से मुड़कर श्यामसुन्दरजी शर्मा के मकान को शामिल करते हुये रामचंद्रजी गोला के मकान को शामिल करते हुये कालूजी अजमेरा के मकान से मुड़कर रामबाबू बड़भुजिया के

		मकान को शामिल करते हुये रतनजी गुर्जर ठेकेदार के मकान के सामने की समस्त आबादी शामिल करते हुये प्रवीणजी कंपाउन्डर के मकान को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में महेशजी पटवारी के मकान को शामिल करते हुये जगदीशजी गुर्जर बगड़ी वाले की गली की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये रामप्रसाद माली के मकान तक
2	वार्ड नं.2	कन्हैया लाल एम.एल.ए. साहब के मकान से शुरू होकर जयपुर रोड के पश्चिम दिशा के सभी मकान व दुकानों को शामिल करते हुये, शाहपुरा बालाजी के पश्चिम दिशा आबादी शामिल को करते हुये, गुड़ू माली के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़कर कनोई धर्मशाला व आस पास की आबादी शामिल को करते हुये, रामगोपाल ढाबे वाले के मकान को लेते हुये उत्तर दिशा में सम्पूर्ण तेजाजी का चौक बिजणीयों की गली सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये मालियों के मोहल्ले में घासीजी माली के मकान को लेते हुये श्रीनारायणजी मास्टर के मकान को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में कब्रिस्तान को शामिल करते हुये प्रहलादजी चांवला की दुकान को लेते हुये, सुलभ कोम्प्लेक्स को शामिल करते हुये, कब्रिस्तान को लेते हुये बड़ के बालाजी की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये दादाबाड़ी सरस्वती विधामंदिर तक की सम्पूर्ण आबादी
3	वार्ड नं. 3	रामबाबू दुसाद के मकान से शुरू होकर सुरेश मेडिकल के मकान को लेते हुये मदन नागरा की गली की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये, आगे महादेवजी की गली की गली की आबादी शामिल करते हुये कजोड़ सैनी के मकान को शामिल करते हुये पोखर ठेकेदार की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, भोपत बावड़ी के पास स्थित सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, मोदी धर्मशाला केकड़ी रोड नगरपालिका कार्यालय को शामिल करते हुये एस.डी.ओ, कार्यालय, तहसील कार्यालय के अंतिम छोर से उत्तर दिशा में मुड़कर चौथमाता वालों के खेत को शामिल करते हुये अशोक चोपड़ा के फार्म हाउस को शामिल करते हुये हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये
4	वार्ड नं. 4	केकड़ी रोड पर रामेश्वर प्रसाद के मकान से शुरू होकर सम्पूर्ण मोड़किया कोलोनी को लेते हुये अनुराग शर्मा के मकान को लेते हुये विजयसिंह मेमोरियल स्कूल को शामिल करते हुये दीनदयाल वाटिका के उत्तर दिशा की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये एव वाटिका स्टेशन रोड में दोनों तरफ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये एल.एन.टी. रोड तक भुतली नाड़ी को शामिल करते हुये केकड़ी रोड के दक्षिण दिशा में स्थित गलियों की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये दिगम्बर जैन स्कूल को शामिल करते हुये पोखर माली की ओर वाली गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये कानजी मार्बल वाले के मकान तक
5	वार्ड नं. 5	डोई पेलेस से शुरू होकर मुख्य केकड़ी रोड उत्तर दिशा में स्थित

		जगदीश खाती, गोपाल बैरवा के मकान को शामिल करते हुये, सम्पूर्ण खाल का ढाबा आबादी लेते हुये, वापस खेड़ल्या रोड पर स्थित गणेश अमलदार के मकान के आस पास की आबादी लेते हुये एल.एन.टी. रोड को शामिल करते हुये वापस डोई पेलेस तक
6	वार्ड नं. 6	केकड़ी रोड के दक्षिण दिशा में औद्योगिक स्कूल के खेल मैदान से शुरू होकर तुलसी रामजी गौड़ के मकान को लेते हुये भंवर कोली की गली की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, मंडोरा भेरुजी के पास की आबादी शामिल करते हुये, भासू हाउस से सम्पूर्ण कृष्णा कोलोनी, पुलिस थाना टोडारायसिंह को शामिल करते हुये वापस पी.डब्लू.टी. के ऑफिस को लेते हुये, पंचायत समिति के परिसर क्वाटर की आबादी को लेते हुये, डाक बंगला, हाय सैकेण्डरी स्कूल को शामिल करते हुये, पिपली चोराहे से हाड़ी रानी कुंड रोड की दाईं साइड की आबादी को शामिल करते हुये, दादूदयाल आश्रम व हाड़ी रानी कुंड को लेते हुये दतशत बगीची को शामिल करते हुये, बीसलपुर पुनर्वास कोलोनी के अग्रिम छोर तक से इन साहब के क्वाटर को लेते हुये सत्यनारायण चाड के मकान को शामिल करते हुये, सुभाष कोलोनी के पीछे सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, रेखारी बाबा की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, सम्पूर्ण हरिजन मोहल्ले को शामिल करते हुये
7	वार्ड नं. 7	महावीर परोता के मकान से शुरू होकर परशुराम मास्टर के मकान को लेते हुये दाईं साइड सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, मूलचंद पंवार के मकान को शामिल करते हुये, बीसलपुर रोड के दाईं साइड की आबादी को लेते हुये, रामसहाय न.पा. की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, सीतारामजी बागवान व गाडिया लुहरो के मकानों को लेते हुये, एव उनके आस पास की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, दशहरा मैदान से आगे पम्प हाउस के आगे भांड बस्ती के समस्त मकानों को लेते हुये समस्त प्रताप कोलोनी को शामिल करते हुये, घासी गुर्जर के मकान को लेते हुये बालनाथ बाबाजी के मकान को लेते हुये, रामलाल पिटीआई के मकान को शामिल करते हुये, सुभाष कोलोनी को शामिल करते हुये, हाड़ी रानी कुंड रास्ते के दाईं ओर परमानंद माहवार के मकान को शामिल करते हुये, समस्त गुर्जरों के मोहल्ले को शामिल करते हुये, वापस महावीर परोता के मकान तक
8	वार्ड नं. 8	शंकराचार्य सर्किल पर मोतीधोबी के मकान से शुरू होकर राकेश हाड़ा के मकान तक इन्द्रागाँधी स्कूल गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, बीसलपुर रोड के दाईं साइड की आबादी को लेते हुये, खाना माली के मकान से दाईं ओर मुड़कर भंवरजी खारोलिया से कैलाश के मकान को शामिल करते हुये, आनंदी लाल के मकान को लेते हुये, मानमल ढाबा वाले के मकान से बन विभाग की चौकी को शामिल करते हुये, आस

		पास सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, बापू स्मारक के दाई और की आबादी को लेते हुये, गुर्जरों की गली आबादी को शामिल करते हुये, सत्यनारायण पार्षद की गली की दोनों तरफ की आबादी शामिल करते हुये आगे ताखाजी तक
9	वार्ड नं. 9	ताखाजी के पास रमेश माली के मकान से शुरू होकर जगदीश कछावा के मकान को शामिल करते हुये, आगे महादेवजी के चबूतरे को शामिल करते हुये, दल्ला रामजी मास्टर की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, ब्रह्म अखाडा के मंदिरों को शामिल करते हुये, चतरी पोल दरवाजा से आगे दाई और गोपालजी प्रजापति की गली को शामिल करते हुये, आगे कानदासजी के मकान को लेते हुये गली की दोनों ओर आबादी शामिल करते हुये, कुम्हारों के चौक के आस पास की आबादी को शामिल करते हुये, मदनजी बोहरा के मकान को शामिल करते हुये, बद्रीजी पोसवाल के अंदर की गली को शामिल करते हुये, सीतारामजी ढोली के मकान को शामिल करते हुये, रामनिवासजी प्रजापति, किशनलालजी प्रजापति के मकान को शामिल करते हुये, चंद्रप्रकाशजी रीडर के मकान को शामिल करते हुये, जामा मस्जिद के पीछे रामनिवासजी प्रजापति के मकान को शामिल करते हुये, किशनलालजी गुर्जर पूर्व चेरमेन के दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुये, महलों की तरफ सिंटू माली से राजू पारिक के मकान को शामिल करते हुये, अम्बालाल गुर्जर के मकान को लेते हुये, चतरी पोल बालाजी के पास तेलियों के मंदिर तक तथा किलेश्वर रोड के दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुये, किशनजी लाकड़ा की गली को शामिल करते हुये, नारायणी माता के आस पास की आबादी को शामिल करते हुये, गोपाल माली के मकान को लेते हुये, बालाजी के मंदिर को शामिल करते हुये, वापस ताखाजी के पास रमेशजी माली के मकान तक
10	वार्ड नं. 10	बापू स्मारक से शुरू होकर बजरंगजी से आगे जोशीजी के मकान तक एव मालियों के मंदिर की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये, नोरत जी के मकान को शामिल करते हुये, बलाबक्स की गली की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये, ताखाजी के सामने की आबादी को शामिल करते हुये, आगे खंडेलवाल धर्मशाला सम्पूर्ण को शामिल करते हुये, आगे ओमप्रकाश जी शर्मा के बाई और मुँडकर मुख्य बाजारों की आबादी को लेते हुये, खंडेलवाल मोहल्ले की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये, माणक चौक से गुजर कर, पुराने थाने को लेते हुये, दालमिल की गली की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये, अजंता स्टूडियो को शामिल करते हुये, खातीयों की गली की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये, आगे फत्तु के दरवाजे के बायीं ओर मुँडकर शंकरजी गौड़ के मकान को शामिल करते हुये, शिशुपालजी के मकान को शामिल करते

		हुये, महादेवजी के मंदिर को शामिल करते हुये, घनश्याम सिंधी के मकान को शामिल करते हुये, मालियों के मंदिर के अंदर की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये
11	वार्ड नं. 11	फत्तु के दरवाजा के पश्चिम से पांडेजी की दुकान को शामिल करते हुये, कैम्बिज स्कूल की गली की आबादी को शामिल करते हुये, छीतर माली के मकान व भटवाडों की गली के नुकङ्ग से शुरू होकर अंदर गली में महावीरजी गौड़, जगदीशजी रामनारायणजी शर्मा के आस पास के मकानों को शामिल करते हुये, वापस बापू स्मारक के सामने गोपाल लुहार के मकान को शामिल करते हुये, मेहरूनिशा के मकान से चोराहा की गली के अंदर स्थित प्रेमचंद माली, सुज्या गुर्जर के आस पास के मकानों को शामिल करते हुये, वापस सुर्दर्शनजी की दुकान को शामिल करते हुये, शिवचंद्र सिंह जी के मकान से आगे मोहनजी से आगे सीतारामजी दुसाद के मकान से मुड़कर (दाई तरफ) गणेशजी के मंदिर को लेते हुये, दूरभाष केंद्र को शामिल करते हुये, सिंधी के मकान को शामिल करते हुये, निहालजी मास्टर के पीछे स्थित हीराजी टेलर के मकान को शामिल करते हुये, घनश्याम मिस्त्री के मकान को शामिल करते हुये, भागचंद बलाई के मकान से आगे हरिराम पेंटर पीछे की गली को शामिल करते हुये, बाबूलाल माहवार के मकान को शामिल करते हुये, पानी की टंकी की आस पास के आबादी को शामिल करते हुये, भटवाडों की गली से नुकङ्ग तक
12	वार्ड नं. 12	दूरभाष केंद्र के सामने जीतेन्द्र नासिरदा वाले के मकान से शुरू होकर निहालजी पोस्ट मास्टर के मकान से मुड़कर मुख्य बाजारों में दाई साइड के सभी मकानों के लेते हुये, रामदयालजी सुवालका के मकान को शामिल करते हुये, चेतनमलजी जैन की दुकान से मुड़कर राहुल्यो की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, हेमराज राहुल्या के कसीदा खारकाने को शामिल करते हुये, नानगराम कोली के मकान को शामिल करते हुये, राजू मिस्त्री की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये डाकोतान मोहल्ले की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये सामने के आबादी व अनवर कसाई के मकान को लेते हुये, बलाईयों की गली की आबादी को लेते हुये, रमलाल बलाई के मकान को लेते हुये, गोपालजी के मंदिर को शामिल करते हुये, भेरूजी के चबूतरे को शामिल करते हुये, मोहनजी गौड़ के मकान व सामने की आबादी शामिल करते हुये, गोविन्ददेवजी के मंदिर से आगे सांवलाजी की गली की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये, भेरूजी की घुमटी के आस पास ओसवालों की गली को लेते हुये, रामनिवास धोबी के मकान से मुड़कर अंजनीबक्ष पांडेता के के मकान को शामिल करते हुये, मोदियो के चौक सम्पूर्ण आबादी शामिल

		करते हुये, याकूब लुहार तक व प्यारे लाल बाबर से सब्जीमंडी होते हुये, तेलियो के मंदिर को शामिल कर दाई और गोपीनाथजी के मंदिर होते हुये धोबियो के मकानों को लेकर वापस प्यारे ला बाबर के मकान तक के सभी मकान
13	वार्ड नं. 13	रतिरामजी खटीक के मकान से शुरू होकर निचे पश्चिम दिशा में सिनेमाहाल को लेते हुये, एसबीआई बैंक से जयपुर रोड मुड़कर दाई साइड की दुकान व आबादी को लेते हुये, आगे और बीओबी बैंक की गली को लेते हुये, आगे विजयवर्गीय की दुकान को लेते हुये, कमला नेहरू कोलोनी को शामिल करते हुये, आगे पोस्ट ऑफिस खरेडा रोड की ओर मुड़कर दाई साइड की आबादी व दुकानों की लेते हुये, आगे मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट के मकान को लेते हुये, दक्षिण में दाई साइड मुड़कर बिजली बोर्ड व सम्पूर्ण मोचियों की आबादी शामिल करते हुये, कोटतली बावड़ी के पास कमलेशजी शर्मा के मकान को लेते हुये, राधेश्यामजी के मकान को लेते हुये, राजेंद्रजी जाट के सामने आबादी शामिल करते हुये, रामधन कबाड़ी रामदेवजी नगरपालिका वाले के आस पास की आबादी को लेते हुये, डॉ मुकेशजी चांवला के मकान को लेते हुये, सीधे गली में नाथूजी जगवाल के मकान को लेते हुये, रूपचंद सिंधी के मकान को लेते हुये, सामने लल्लू पुत्र समरथा खटीक के आस पास की आबादी को लेते हुये, प्रह्लादजी चांवला के मकान व सामने की आबादी को लेते हुये, इब्राहीम भाई रेडियो वाले के मकान तक
14	वार्ड नं. 14	चतरी पोल बालाजी से शुरू होकर लालचंद जी की गली को शामिल करते हुए, सीधे अस्पताल तक एवं अस्पताल के पीछे की आबादी को शामिल करते हुए, खारी कुई से अंदर की ओर अब्दुल अजीज फकीर के मकान से आगे बाई और के मकान को शामिल करते हुए, अब्दुल हलीम जी बम्बई वाले के मकान को शामिल करते हुए अमीम फकीर के मकान तक एवं खलील मास्टर के मकान से इनाम फकीर हामिद भाई टेक्टर एवं हामिद टेलर के मकान को शामिल कर हाकिम जी मास्टर के मकान को शामिल करते हुए इमाम चोक सफी मास्टर के मकान को शमिल करते हुए ढाल मोहल्ला चोक की आबादी को शामिल करते हुए वेध जी की गली की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए, घनश्याम दयमा के मकान को लेते हुए सीताराम जी सरपंच साहब की गली सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए, लक्ष्मी नारायण तेली के मकान को लेते हुए चत्रिपोल बालाजी पर समाप्त
15	वार्ड नं. 15	इमाम चोक संजय गोधा की दुकान से शुरू होकर कजोड़ प्रजापत के मकान को शामिल करते हुए, मन्नाजी मास्टर के मकान को शामिल करते हुए, हकीम खान ऊट वाले की गली को दोनों तरफ की आबादी को शामिल करते हुए शफीक टेलोर के मकान को लेते हुए, अकबर खाती के

		मकान को लेते हुए, शफी मोहम्मद झलनीया के मकान को लेते हुए आगे सुर्नाडा में स्थित सभी मकानों को लेते हुए, बुधसागर रोड पर स्थित अंसारी धर्मशाला को शामिल करते हुए शोकत मास्टर, पटेल के मकान से गुफरान की दुकान को शामिल करते हुए, सत्तार फारुख नगीना से इमाम चोक संजय गोधा की दुकान तक
16	वार्ड नं. 16	परसा, बरदा, भूरा रेगर के मकान से शुरू होकर दल्ला रेगर के मकान को शामिल करते हुए, करणी माता के चारों तरफ की आबादी को शामिल करते हुए, पुराने बाबा रामदेव मंदिर के आस पास की आबादी को शामिल करते हुए, बजरंगी, रामलालजी, के मकानों के लेते हुए, नाथूजी, गजानन्द जी रेगर के मकान से लाला अर्जुन के मकान से घाटी के दायी और के मकानों को लेते हुए, बाबा रामदेव जी के मंदिर को शामिल करते हुए, नाथू पुत्र उकार जी के मकान को लेते हुए पूर्व दिशा की गली में मुङ्कर दायी साइड की आबादी को शामिल करते हुए आगे बाबूलालजी के मकान को शामिल करते हुए आगे सामने नानकराम जी के मकान को शामिल करते हुए, पुलिया वाली गली स्थित नन्द लाल पूर्व स्वर्ण पार्षद की सम्पूर्ण गली को लेते हुए निचे नगरपालिका की सीमा को शामिल करते हुए आगे घटी रेगरान स्कूल को शामिल करते हुए बायी और मुङ्कर मुन्ना भाई चक्की वाले के मकान को शामिल करते हुए आगे शकूर के मकान को शामिल करते हुए, गली के कोर्नर से वापस मुङ्कर बायी साइड की आबादी को शामिल करते हुए, जुम्मा फकीर के मकान को शामिल करते हुए आगे रसीद बाबूजी के मकान को शामिल करते हुए आगे मोहन रेगर, परसा भूरा के मकान पर समाप्त
17	वार्ड नं. 17	नागरो की गली से आलम नूर के मकान से शुरू होकर युसूफ अल्ली के मकान को शामिल करते हुए, जावेद जी वकील के मकान को शामिल करते हुए, कोरनर पर गन्नी भाई के मकान को शामिल करते हुए, निचे बायी साइड की आबादी को लेते हुए, नल वाली सम्पूर्ण गली को लेते हुए, मुल्तानियों की गली सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए, आगे रेगरो को की धर्मशाला से आगेरामबाबू के मकान से हरिजन बस्ती को लेते हुए रामप्रसाद जी के मकान को शामिल करते हुए, सूरजकुण्ड नाडा को शामिल करते हुए पूर्व गली के बायी और राजपाल के मकान को शामिल करते हुए आगे अर्जुन लाल जी के मकान को शामिल करते हुए, आगे दुर्गलाल जी के मकान को शामिल करते हुए, पहाड़ी पर स्थित आबादी को शामिल करते हुए, नंदलाल जी वर्मा रीडर के मकान को शामिल करते हुए, वापस गली में मुङ्कर दोनों तरफ की आबादी को शामिल करते हुए
18	वार्ड नं. 18	नागरो की गली के अंदर हामिद भाई नागरा के मकान से शुरू होकर दायी और मजिद भाई के मकान को लेते हुए, आगे कोर्नर पर अनिल

		जी उमाकांतजी भार्टुवाज के मकान को लेते हुए, गणेशजी की गली को शामिल करते हुए लादुदायमा के मकान के आगे व्यासो की गली की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए, आगे विद्याधर मास्टर की दुकान बरम अखाड़ा से दायी और मुड़कर आगे अधिनाथ मंदिर को शामिल करते हुए अशोक कुमार जैन के मकान से अंदर को और मुड़कर दायी साइड को आबादी को लेते संत कुमार जैन चेयरमेन साहब के मकान को शामिल करते हुए आगे पञ्च महादेव की गली को शामिल करते हुए कमल कोठारी की गली को शामिल करते हुए, बोहोरो की गली को शामिल करते हुए आगे बाल भारती स्कूल की गली को शामिल करते हुए, किशन गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए, हीरानंद बाबा के पास चेतनजी कोठारी के मकान को लेते हुए आगे रामलाल गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए राकेश, सुरजनि के मकान को लेते हुए, आखरी में बजरंग, बट्री जी के मकान तक
19	वार्ड नं. 19	मुख्य बाजार बसंत मेडिकल से शुरू होकर अंदर गली में जैन भवन को शामिल करते हुए सूरज जी साटया मनोज साटया जी के पास की गली लेते हुए भेरु जी के स्थान को शामिल करते हुए, विमल सराफ के मकान से आगे गोदा जी की गली को शामिल करते हुए आगे कोठारी की गली को लेते हुए बायी साइड की संपूर्ण आबादी को लेते व् किशन गुर्जर के बाड़े को लेते हुए हीरानंद बाबा के चबूतरे से मुड़कर ठगों के मोहल्ले की बायी साइड की आबादी व् बाबु गुर्जर ठग के मकान को लेते हुए आगे मयंक वकील के मकान को लेते हुए कोने पर सत्यनारायण जी के मकान को लेते हुए घियाजी की गली व् लाठी जी के आस पास की आबादी को लेते हुए बचुलाल जी जैन के मकान को शामिल करते हुए आगे रामस्वरूप झंडा के मकान को शामिल करते हुए बायी साइड की आबादी को लेते हुए चोबेजी की हवेली को लेते हुए मिलाप्जी कनोई के बायी साइड मुड़कर बायी साइड की आबादी को लेते ही अग्रवाल धर्मशाला को लेते हुए कटले के दायी साइड मुख्य बाजार की और घूमकर चेताला मंदिर की गली की संपूर्ण आबादी को शामिल करते हुए आगे बसंत मेडिकल स्टोर तक
20	वार्ड नं. 20	मैन बाजार में मोहन मोटा की दुकान को लेते हुए ओर्धोगिक स्कूल को लेते हुए मोती लाल रेगर की दुकान तक दोनों तरफ की आबादी को शामिल करते हुए दायी और जीवनधर की दुकान से मुड़कर सामने पुरोहित जी की हवेली से कल्याण जी के मंदिर तक की दोनों तरफ की आबादी को लेते हुए घासी लाल तेली के मकान से बायी और मुड़कर कैलाश तेली के मकान तक की आबादी को शामिल करते हुए परिचम की और चढ़कर हामिद मंसूरी का मकान को लेकर नोरत जी तेली वाले

		के समाने ओम नाई पोस्टमैन के मकान को शामिल कर सीधे मार्ग पर दक्षिण और चलकर दोनों और की आबादी लेते हुए कल्याण जी मंदिर तक चलकर कटला चोक की रामजी मोटी वाली लाइन को शामिल कर कटले की प्याऊ तक व् दबाखाने से अंदर ब्रमानी माता मंदिर के सामने झंडे व् कालेडा वाले के मकानों को शामिल करते हुए सीधे कमल जी बरवास वाले के मकान को लेकर दामोदर कलाल के मकान से होते हुए रसीद हम्माल, किशन बावला गुर्जर से अंसारी छोटू हम्माल के मकानों को शामिल कर कर्णबाबा गुर्जर के मकान तक व् मोदियान गली में मुड़कर रामस्वरूप मोटी के मकान को लेते हुए मोतीलाल रेगर तक व् संपूर्ण चप्लोतो की गली व् बद्धुच्यो के समस्त मकान की आबादी
21	वार्ड नं. 21	देवा गुर्जर वाना के मकान से संपूर्ण कंकाली माता का चोक को लेते हुए, कन्हेयालाल चोधरी के मकान से शुरू होकर मदन लाल कनोई के मकान को लेते हुए जगदीश नाई के मकान को शामिल करते हुए श्रवण नाई के मकान/रामस्वरूप नाई का मकान सीताराम उपदयाय से घुसकर दायी तरफ के मकानों को लेते हुए गुर्जियों का मोहल्ले को शामिल करते हुए श्रवण लाल मुम्मय रामजी का मंदिर जगदीश मुम्मया के मकान को शामिल करते हुए लाला सोल्घर के मकान को लेते हुए उपर के सभी के मकानों को लेते हुए नाथू तेली के मकान से नागोरियान में चंद्र मल झंडा की दुकान तक व् गफूर लुहार से सरदार नेता जमाल सानठला के मकान को लेते हुए हसन खा राठौर तक एवं भूरे खा के मकान से फकीर मोहम्मद के मकान को लेते हुए बसीर मोहम्मद के मकान को शामिल कर छितर के मकान से हनीफ मोहम्मद के मकान तक
22	वार्ड नं. 22	अब्दुल रहमान मांगे खा के मकान से जमाल सुबराती के मकान तक मजिस्ट्रेट के चोक से मुस्तकीम खा पुत्र अलादीन खा के मकान के सामने हथाई से मंडी के मंदिर को हुए यासीन खा व् आसम खा के मकान से गुलशेर के मकान से होते हुए जमाल बेलिशह फकीर के मकान को लेते हुए सुल्तान खा, चाँद खा, के मकान से बस्सी रोड शमसान तक व् शमसान से पश्चिम दिशा में चलते हुए रोड के सहारे आल्नुर चेम्पएन के मकान को लेते हुए सत्तार वाईस चेयरमेन के मकान से बायी और घूमकर पंचायेती नोहरे तक की समस्त आबादी
23	वार्ड नं. 23	टॉक गेट चुंगी नाका से शुरू होकर खोखरो की गली के सभी मकानों को लेते हुए उपर की तरफ फरियाद राठौर के मकान से नन्नू जाट की मील से उपर जमाल पटेल की गली के सभी मकानों को लेते हुए हनुमान तेली मिश्रीलाल तेली के पास की गली गुच्छी मोहल्ला में शराफत पटवे के मकान से चोधरी के चक्की को लेते हुए दायी और पूर्व दिशा में जाकिर गहलोत के मकान को शामिल कर नयी पानी की टंकी तक की आबादी व् जयपुर चुंगी नाके से राजेंद्र जैन के मकान से लेकर इंद्रपाल

		यादव के मकान को लेते हुए भूतेश्वर महादेव मंदिर से रोला टोला मार्ग की आबादी को लेते हुए सिधे चोमुख महादेव से जयपुर चुंगी नाके तक की पोस्ट ऑफिस के दोनों और की आबादी एवं लुकमान जमादार से नरसिंह मंदिर होते हुए मांगे खा भाठी के मकान को शामिल कर खाजू सक्रवता के मकान के पास सती माता तक
24	वार्ड न. 24	गुच्छी मोहल्ला खिडकी के बालाजी की तरफ पहाड़ी के सभी मकानों को लेते हुए बालाजी के पास नाड़ी के संपूर्ण मकानों को लेते हुए बच्ची खटिक के मकान से जगदीश खटिक के नोहरे से होते हुए बली महोम्मद कसाई के मकान से दायी तरफ उपर की और की आबादी को लेते हुए रसीद नागोरी के मकान से सुबराती के मकान तक, मस्जिद गुच्छी के समीप वाहिद, फरीद, शाहिद, हासिम, हारून मास्टर के मकानों को शामिल करते हुए चेची मोहल्ला सुरजा गुर्जर, हीरा गुर्जर बद्री गुर्जर के मकान को लेते हुए छितर गुर्जर, अमजद, कालू फलादि को शामिल कर फड़ू हमाल के मकान के आस पास हमालो के मकानों को लेते हुए मस्जिद हमालन से शीधे हलीम कसाई से हम्मालान चबूतरे तक वापिस मुड़कर प्याऊ के पास नारियान माजिद से मुख्य बाजार में हकीम पठान मोहन चक्की वाला बिल्लू सरदार के मकान को लेते हुए रामस्वरूप रूपिका के मकान तक
25	वार्ड न. 25	खरेडा रोड पर शमशान से शुरू होकर हरि का झोपड़ा मकान को लेते हुए समस्त ढाणी फुटयादेवरा आबादी को शामिल करते हुए राजकीय प्राथमिक विधालय फुटयादेवरा से लेकर बालू के मकान को लेते हुए सुखा माली के मकान से बाबु गुराक के मकान से कालू माली गोला के मकान को शामिल कर मुंडकटया बालाजी से शकूर भाठी धुँआ वालो के मकान तक

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका टोडारायसिंह

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।